



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1935 (श0)

(सं0 पटना 675)

पटना, शुक्रवार, 23 अगस्त 2013

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त 2013

सं0 सं0का0-1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)-05-02/2011(पार्ट)-1090—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा-8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013**

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ।** — (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।  
(2) यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम-8(क), (ख)(iv), (ख)(v) एवं (घ)(iv) में संशोधन।** — बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-8(क) की पांचवीं पंक्ति, (ख)(iv) की पहली पंक्ति, (ख)(v) के चौथे एवं पांचवे परन्तुक की तीसरी पंक्ति तथा (घ)(iv) की पहली पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक “15/- (पन्द्रह) रुपये” अंक, शब्द एवं कोष्टक “20/- (बीस) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बृज राज राय,  
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 675-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>